

बाइक चालक !

सभी बाइक चालक इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अपनी और सड़क इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इन महत्वपूर्ण सुझावों का पालन करें:



**पूरी
ड्रेनिंग लें**



**अपना प्रभाव डालने
के लिए तैयार हों**



**कम
स्पीड रखें**




**संयम से
राइड करें**

सुरक्षित और सावधानी से राइड करें


TARGET ZERO

पूरी ड्रेनिंग लें

बाइक चलाने के लिए टेक्निकल स्किल्स और अच्छे तालमेल की आवश्यकता होती है। किसी ट्रेनिंग केंद्र पर जाएँ और प्रैक्टिस जारी रखने के लिए समय निकालें।




अपना प्रभाव डालने के लिए तैयार हों




राइड के लिए उचित तरीके से तैयार होना, सड़क पर सब से बेहतर सुरक्षा है। उचित सुरक्षा सामग्री पहन कर, सिर से पैर तक खुद को सुरक्षित रखें।

कम स्पीड रखें

तेज़ स्पीड पर गाड़ी चलाने से आपको प्रतिक्रिया का कम समय मिलता है और आपके रुकने की दूरी कम हो जाती है, जिससे आपकी देखने की क्षमता सीमित हो जाती है और यह बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। स्पीड लिमिट का पालन करें।



मंयम से राइड करें



बाइक चलाने के लिए एकाग्रता और तेज़ प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। शराब और नशीली दवाएं आपके निर्णय, देखने की क्षमता, ध्यान और ड्राइविंग स्किल्स को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप कोई नशा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपनी बाइक घर पर छोड़ दें।